

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 जून 2019—ज्येष्ठ 21, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जून 2019

क्र. एफ-3-3-2018-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर एतद्वारा श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त, पुलिस उप महानिरीक्षक (भा.पु.से.) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिये संभागीय सतर्कता समिति सागर में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.